

दिनांक : 18.07.2023

क्रमांक :- अज/आर.टी.आई.-2023/


श्री एस. के. पाण्डा,  
संयुक्त महाप्रबन्धक/प्रशा0 (जू.सू.अ.)  
डीएफसीसीआईएल, नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आर. टी. आई. संख्या 499 का जवाब  
/ सूचना प्राप्त कर इस पत्र के संलग्न कर भिजवाई गई है।

अतः प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का प्रत्युत्तर संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

  
(बृज राज)

महा प्रबन्धक विधुत  
डीएफसीसीआईएल, अजमेर

Table 7 : Schedule of maintenance for Water Supply & Sanitation Items

Sl. No.	Item	Type of Building	
		Station & Technical Buildings	Residential Buildings
1	Cleaning and Disinfecting of water storage/ Distribution tanks, Water mains	Once in 6 months	Once in 6 months
2	Mechanised cleaning of manholes/ Gully chamber/ inspection chambers and flushing of building sewers	Once in 6 months	Once a year before monsoon
3	Cleaning of storm water drains including valley gutters, vertical down take pipes including that Roof Rainwater harvesting	Once a year before monsoon	Once a year before monsoon
4	Cleaning of Open Wet drains	At least once a fortnight	At least once a fortnight
5	Cleaning of other small drains parallel to roads	At least once a month	At least once a month

Table 8 : Schedule of maintenance for RWHP

Sl. No.	Routine Maintenance Tasks	Frequency
1	Remove leaves and debris from gutters and downspouts	Once in 6 months
2	Remove any algae growth	Once in 6 months
3	Inspect for and repair any clogging	Once a year
4	Inspect tank and remove sediment build up	Every 3 years
5	Clear overhanging vegetation over manhole	Every 3 years

### 3.6 INSPECTION OF STRUCTURAL STEEL WORKS

- A) Every structure such as workshops, sheds, platform, structures with roof trusses on the Corridor shall be inspected in detail by the Supervisor (Works) at the frequency of once a year and the APM shall inspect 20% of the overall structures mentioned every year on a programmed basis.
- B) The Supervisor (Works) shall record results in ink in the structural steel inspection register in the form given in Annexure 2.9 of IRWM and submit the same by the prescribed date to the APM Engineer who should scrutinize the entries, and issue such orders as deemed necessary and return the Register. Prompt action shall be taken to carry out repairs required.
- C) During inspection, the following points should receive attention:
  - I) The condition of paint.
  - II) Whether any corrosion in steel is taking place.
  - III) Whether any deformation of the structure has occurred.
  - IV) Foundations and bearings with particular reference to tightness of anchor bolts.
- D) The inspecting official shall make a thorough examination of every part of a structure in all respects, using ladders and scaffolding for examining portions beyond reach from the ground. If considered necessary, the assistance of the Bridge staff may be requisitioned for the purpose.

Attested  
  
 18.07.23  
 उप परियोजना प्रबन्धक / सिविल  
 Deputy Project Manager/Civil